



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20]
No. 20]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 30, 1980/माघ 10, 1901
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 30, 1980/MAGHA 10, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1980

अधिसूचनाएं
सीमा शुल्क

सा. का. नि. 25(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं. 84.66(1) की मद (व) की उपमद (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं. 269-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या (4) और उसमें संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(5) इन्डो-यू एस एम आर ट्रोपोस्केटर कम्यूनिकेशन लिंक प्रोजेक्ट” ।

[संख्या 9/का. सं. 360/12/79-सीमा-शुल्क-1]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

New Delhi, the 30th January, 1980

NOTIFICATIONS
CUSTOMS

G.S.R. 25(E).—In exercise of the powers conferred by sub-item (6) of item (d) of Heading No. 84.66 (i) of the First 1154 GI/79

Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, having regard to the economic development of the country, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 269-Customs dated the 2nd August, 1976, namely :—

In the said notification after Serial No. (4) and the entries relating thereto the following shall be inserted, namely :—

“(5) INDO-USSR Troposcatter Communication Link Project”.

[No.9/F. No. 360/12/79-Cus.1]

सीमा शुल्क

सा. का. नि. 26(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, द्वि नाइट्रोजन संयंत्र, उसके सहायकों और अतिरिक्त भागों को, जब भारत में उनका आयात कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में पशु प्रजनन कार्यों में प्रयोग के लिए किया जाए, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा-शुल्क और पश्चात् कथित अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर अधि-ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क से छूट देती है ।

2. यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1980 तक, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, प्रवृत्त रहेगी ।

[सं. 10/का. सं. 355/84/78-सीमाशुल्क-1]

CUSTOMS

G.S.R. 26(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts liquid nitrogen plant, its accessories and spares, when imported into India for use in artificial insemination Centres for Cattle breeding from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st day of December, 1980.

[No. 10/F. No. 355/84/78-Cus.I]

सीमा शुल्क

सा. का. नि. 27(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1979 (1979 का 21) की धारा 31 की उपधारा (4) के साथ पठित, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 104-सीमा-शुल्क, तारीख 10 मई, 1979 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में क्रम संख्या 237 और उसमें संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतः-स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“238 सं. 10 सी.श. तारीख 30 जनवरी, 1980।”

[संख्या 11/फा. सं. 355/84/78-सीमाशुल्क-1]
क. चन्द्रमौली, अवर सचिव

G.S.R. 27(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with sub-section (4) of section 31 of the Finance Act, 1979 (21 of 1979), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 104-Customs, dated the 10th May, 1979, namely :—

In the Schedule annexed to the said notification, after Serial No. 237 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

“238 No.10-Customs dated 30th January, 1980.”

[Notfn. No. 11/F. No.355/84/78-Cus.I]
K. CHANDRAMOULI, Under Secy.